

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या-52

दिनांक- 10.10.2020

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अहमद हत्याकाण्ड से सम्बन्धित प्रेमिका सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना फतेहपुर पुलिस को अहमद हत्याकाण्ड में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या कारित करने वाली प्रेमिका सहित 01 अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- नसीरुद्दीन उर्फ मिथुन पुत्र मो0 नसीर उर्फ मटरू निवासी नालापार दक्षिणी-1 तकिया कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।

2- नीलम पुत्री स्व0 विजय निवासी मो0 पचघरा कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।

थाना फतेहपुर पर दिनांक 08.10.2020 को वादी मो0 जुबेर पुत्र स्व0 गनी अहमद निवासी मो0नालापार दक्षिणी-01 कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ने सूचना दिया कि मेरा भाई मो0 अहमद वाराणसी में बिस्किट की बेकरी में काम करता है और 05 दिन पूर्व ही वह घर आया था । दिनांक-07.10.2020 को रात्रि लगभग 08.30 बजे घर से कस्बे में जाने लिए बता कर गया था लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया । रात्रि लगभग 09.30 बजे वकील पुत्र मो0 अलीम ने मेरे घर आकर बताया कि सुरजा तालाब की तरफ से आ रहा था तो अलाऊद्दीन बाग के पास सड़क पर नीलम की बात को लेकर मो0 अहमद व नसीरुद्दीन उर्फ मिथुन के बीच लड़ाई-झगड़ा हो रहा है । वादी द्वारा मौके पर गया तो उस स्थान पर कोई नहीं मिला और प्रातः 07.00 बजे के लगभग गले में तौत से कसा हुआ शव काजी बाग स्थित धान के खेत में मिला । इस सूचना के आधार पर थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0-368/2020 धारा 302 भादवि बनाम बाइस्तवा (सन्देही अभियुक्त) नीलम व नसीरुद्दीन उर्फ मिथुन पंजीकृत हुआ । पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर0एस0 गौतम द्वारा घटित घटना में तत्काल हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के आदेश पर क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री संजय कुमार मौर्य द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गिरफ्तारी करने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा था ।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 10.10.2020 को अहमद हत्याकाण्ड से सम्बन्धित बाइस्तवा अभियुक्तगण 1- नसीरुद्दीन उर्फ मिथुन पुत्र मो0 नसीर उर्फ मटरू निवासी नालापार दक्षिणी-1 तकिया कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, 2- नीलम उर्फ मिथुन पुत्री स्व0 विजय निवासी मो0 पचघरा कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर पटेल चौराहा थाना फतेहपुर से समय लगभग 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया ।

घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ एवं भौतिक साक्ष्यों के संकलन से प्रकाश में आया कि मो० अहमद का प्रेम सम्बन्ध कस्बा फतेहपुर की नीलम से लगभग 05-06 वर्षों से है, जिसकी जानकारी भी आस-पास के लोगों को थी । मो० अहमद लगभग 03-04 वर्षों से जनपद वाराणसी में बिस्किट की बेकरी में काम करने लगा और उसका अपने घर कस्बा फतेहपुर में आना-जाना लगभग एक-डेढ़ माह में होता था । मो० अहमद जब भी वाराणसी से अपने घर आता था तो नीलम के साथ अक्सर घूमा-फिरा करता था । इसी बीच नीलम का अवैध सम्बन्ध कस्बा फतेहपुर के नसीरुद्दीन उर्फ मिथुन से हो गया और वह उसके साथ घूमने-फिरने लगी । अक्टूबर माह के प्रारम्भ में मो० अहमद अपने घर कस्बा फतेहपुर आया तो पूर्व की भांति दिनांक-07.10.2020 को नीलम के पास गया तो उसको नसीरुद्दीन के साथ देखने पर लड़ाई-झगड़ा होने लगा । इसके बाद लड़ाई-झगड़ा शांत होने के बाद मृतक व अभियुक्तगण साथ में बैठकर काजीबाग के पास शराब पिये । शराब पीने के उपरान्त मो० अहमद के नशे में हो जाने पर नसीरुद्दीन और नीलम ने रास्ते से हटाने के लिए तौत से गला कसकर हत्या कर दी और शव को धान के खेत के पास छोड़ कर भाग गये।

#### **पुलिस टीम:-**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय मौर्य थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।
- 2- 30नि० श्री राजन श्रीवास्तव थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।
- 3- 30नि० श्री प्रफुल्ल कुमार यादव थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।
- 4- का० राज बहादुर सिंह , का० विष्णु तिवारी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।
- 5- का० दीपक जायसवाल, का० दिनेश प्रताप सिंह, का० पुनीत कुमार थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।
- 6- म०का० महिमा पाण्डेय थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।